

प्रेषक,

डॉ० भूपिन्दर कौर औलख
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर,
रायपुर, देहरादून।

खेलकूद अनुभाग

देहरादून: दिनांक: 16 मार्च, 2018

विषय:- राज्य में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की खेल अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु राजीव गांधी अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम एवं स्पोर्ट्स काम्पलेक्स रायपुर, देहरादून को O&M के आधार पर मै० IL&FS Township & Urban Assets Pvt Ltd. को दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

राज्य गठन के पश्चात् राज्य में सृजित खेल अवस्थापनाओं की निरन्तर उपयोगिता एवं इसके चुनौतीपूर्ण अनुरक्षण आदि के कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त राजीव गांधी अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम एवं स्पोर्ट्स काम्पलेक्स रायपुर, देहरादून को O&M के आधार पर मै० IL&FS Township & Urban Assets Pvt Ltd. को दिये जाने के सम्बन्ध में Agreement में प्रस्तावित Concession Period को प्रथमतः 30 वर्ष रखे जाने तथा यदि फर्म का Performance अच्छा रहता है, तो इसके Concession Period को 15 वर्ष के लिए यथाप्रक्रिया और बढ़ाया जा सकता है, का निर्णय लिया गया है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मै० IL&FS Township & Urban Assets Pvt Ltd. के साथ उपरोक्तानुसार संशोधित Agreement करते हुए फर्म के साथ किये जाने वाले अनुबन्ध सहित प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ० भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

संख्या-२१९ /VI /2018-22 (3)2010, तददिनांकित

प्रतिलिपि, निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा० खेल मंत्री उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग उत्तराखण्ड शासन।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजीव गांधी अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम एवं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रायपुर, देहरादून।
6. मै० IL&FS Township & Urban Assets Pvt Ltd.", मुम्बई-400051
7. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)

संयुक्त सचिव